

**\*@Shajahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट सराहनीय कार्य 09.01.2023\***

**\*थाना परौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता,\***

**\*अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड, भारी मात्रा में निर्मित-अर्द्धनिर्मित शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद**

**I\***

श्री एस0आनन्द पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अवैध शराब व अवैध शस्त्र में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजीव कुमार बाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री अजय कुमार राय क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के कुशल निर्देशन में थाना परौर की पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

\*आज दिनांक 09.01.2023 की रात्रि 03.30 बजे थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार थाना परौर के नेतृत्व में थाना परौर की पुलिस टीम द्वारा जंगल ग्राम हैदलपुर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड कर अभियुक्त राकेश को गिरफ्तार किया गया। मौके से 04 अदद तमंचा देशी 315 बोर मय एक कारतूस जिन्दा 315 बोर व 03 अदद तमंचा 12 बोर तथा 02 खोखा कारतूस 12 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद अर्द्धनिर्मित बट मय बाडी मय अर्द्धनिर्मित नाल लोहा 315 बोर ,02 अदद अर्द्धनिर्मित ट्रिगर तथा 01 अदद अर्द्धनिर्मित इजेक्टर ,01 अदद अर्द्धनिर्मित बंदूक 12 बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में थाना परौर पर मु0अ0सं0 06/2023 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।\*

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-\***

1. राकेश पुत्र रामभरोसे लाल निवासी ग्राम पर्वतपुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर

**\*बरामदगी -\***

1. 07 अदद देशी तमंचा विभिन्न बोर ( 04 तमंचे 315 बोर व 03 तमंचे 12 बोर )
2. 05 कारतूस विभिन्न बोर (01 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस)
3. 01 अदद अर्द्धनिर्मित बंदूक 12 बोर
4. 01 अदद अर्द्धनिर्मित बट मय बाडी मय अर्द्धनिर्मित नाल लोहा 315 बोर
5. 02 अदद अर्द्धनिर्मित ट्रिगर
6. 01 अदद अर्द्धनिर्मित इजेक्टर
7. शस्त्र बनाने के उपकरण ,धुकनी ,शिकंजा ,ड्रील मशीन ,वर्मा ,गाटर ,रेती ,प्लास ,हथौड़ी ,सुम्मी व अन्य उपकरण।

**\*पूछताछ का विवरण:-\***

पकडे गये व्यक्ति से बरामद तमंचो व शस्त्र बनाने के उपकरणों के बारे में पूछताछ मे बताया कि मैं बदल-बदल सुनसान क्षेत्रो मे देशी तमंचा व बंदूक बनाकर बेचकर व पुराने तमंचो व बन्दूको को बेचकर प्राप्त पैसो से अपना गुजारा करता हूँ। अवैध तमंचा बनाकर मे 4000-5000 रूपये मे बेचता हूँ। चार- पाँच बार यह काम करते पकडा भी गया हूँ। मैं रामगंगा नदी के किनारे इस सूनसान जंगल मे पतेर की झुडो के जंगल मे अवैध तमंचे का निर्माण कर रहा था कि आपके द्वारा पकड लिया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा पूर्व मे बिक्री किये गये असलहा व अन्य प्रकाश मे आये तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

#### **\*अपराधिक इतिहास –\***

1. मु0अ0सं0 19/15 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 170/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर
3. मु0अ0सं0 298/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर
4. मु0अ0सं0 102/17 धारा 307 भादवि थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर
5. मु0अ0सं0 103/17 धारा 3/25A/27 आर्म्स एक्ट थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर
6. मु0अ0सं0 104/17 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर
7. मु0अ0सं0 283/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर
8. मु0अ0सं0 06/23 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर

#### **\*गिरफ्तारी करने वाली टीम-\***

1. थानाध्यक्ष संजय कुमार थाना परौर शाह0
2. उ0नि0 बलराज सिंह
3. का0 1808 यतेन्द्र कुमार
4. का0 1774 सोमवीर
5. का0 1910 अभिषेक गिरी